

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 1967/कार्तिक 15, 1889

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 1967/KARTIKA 15, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT
& COOPERATION**

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 6th November 1967

G.S.R. 1677.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Madhya Pradesh Rice Procurement (Levy) Order, 1960,—

1. This Order may be called the Madhya Pradesh Rice Procurement (Levy) Second Amendment Order, 1967.

2. In the Madhya Pradesh Rice Procurement (Levy) Order, 1960,—

(i) for sub-clause (2) of clause 1, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh”;

(ii) in clause 3, in sub-clauses (1)(b), (2)(b) and (2A) for the expression “100%—or 100 per cent”, wherever they occur, the expression “60 per cent” shall be substituted.

[No. 206(MP)(2)/979/67-PY.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

(573)

